

जेएनयू अधिकारी संघ
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली-110067

जेएनयू अधिकारी संघ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सभी समूह-‘क’ अधिकारियों का मान्यताप्राप्त संघ है। इसकी स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। इसमें विभिन्न संवर्गों यथा - कुलसचिव, पुस्तकाध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, पशु-चिकित्सा अधिकारी, संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव/उप वित्त अधिकारी, सहायक कुलसचिव/सहायक वित्त अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, उप पुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष, उप निदेशक तथा सहायक निदेशक (अभिलेखागार), अधीक्षण इंजीनियर, कार्यपालक एवं सहायक इंजीनियर, तकनीकी अधिकारी, वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा), मुख्य सुरक्षा अधिकारी, हिंदी अधिकारी, क्यूरेटर आदि सदस्य होते हैं।

संघ के संविधान के अनुसार, इसके सदस्य पांच पदाधिकारी, पांच कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा दो जीएसकैश सदस्य (एक पुरुष तथा एक महिला) का चुनाव एक वर्ष की अवधि के लिए करते हैं। संघ का मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य लोकतांत्रिक हितों की रक्षा करना तथा विशेष रूप से अपने सदस्यों एवं सामान्य रूप से विश्वविद्यालय समुदाय के हित को प्रोत्साहन देना है। निम्नलिखित पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा जीएसकैश प्रतिनिधि 10 अगस्त 2018 से एक वर्ष की अवधि के लिए चुने गए हैं:-

श्री जगदीश सिंह (सहायक कुलसचिव) अध्यक्ष	श्री तरुण पंत (सिस्टम एनालिस्ट) महासचिव
श्री महेश चंद (सहायक पुस्तकाध्यक्ष) उपाध्यक्ष	डॉ. दिनेश कंवर यादव, पशु-चिकित्सा अधिकारी संयुक्त सचिव
श्री धर्मपाल (सहायक वित्त अधिकारी) कोषाध्यक्ष	
विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् विशेष आमंत्रि डॉ. सूर्य प्रकाश (तकनीकी अधिकारी)	
कार्यकारिणी समिति सदस्य श्री एस.के. मिश्रा (तकनीकी अधिकारी, जीवन विज्ञान संस्थान), श्री के. वर्गीस (सिस्टम एनालिस्ट, सीएसआरडी, एसएसएस), श्रीमती ममता रानी (सहायक पुस्तकाध्यक्ष), श्री अशोक कुमार (सहायक कुलसचिव, एसएसएस) तथा श्रीमती गंगा थपलियाल (सहायक पुस्तकाध्यक्ष)	

श्री गिरिजा कुमार, पुस्तकाध्यक्ष तथा श्री मोती राम, उप कुलसचिव जेएनयू अधिकारी संघ के क्रमशः पहले अध्यक्ष एवं महासचिव थे। उनके बाद श्री जे.एस. खन्ना, कुलसचिव, डॉ. जगदीश लाल, श्री जगदीश चंदर, डॉ. कृष्ण गोपाल, श्री जे.पी.एस. ढाका, श्री कुम राव, श्री जे.एस. बवेजा, श्री ए.सी. एलेग्जेंडर, श्री वी.सी. त्यागी, श्री पी.के. जैन, श्री एस.के. मिश्रा, डॉ. सूर्य प्रकाश, श्री जगदीश सिंह, श्री पी.एस. चहार, डॉ. वर्षा शर्मा, श्री के. वर्गीस, श्री मनोज कुमार मनुज तथा श्री जगदीश विद्यार्थी इस संघ के अध्यक्ष एवं महासचिव रह चुके हैं।

अधिकारी संघ का कार्यालय जेएनयू में रेलवे आरक्षण कार्यालय के पास स्थित है। संघ कार्यालय के टेलीफोन नं. 011-26738736 हैं तथा ईमेल का पता inuoa.inu@gmail.com है। जेएनयू अधिकारी संघ राष्ट्रीय स्तर के निकायों से संबद्ध है तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों यथा - अखिल भारतीय विश्वविद्यालय अधिकारी संघ/महासंघ का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं के सभी संघों तथा जेएनयू समुदाय का जेएनयू अधिकारी संघ में स्वागत है।

अपने सदस्यों के पूर्ण सहयोग से जेएनयू अधिकारी संघ अपनी स्थापना से ही अपने सदस्यों के कल्याण और विश्वविद्यालय की खुशहाली तथा विकास के लिए निरंतर कार्यरत है।